

Worksheet - 2

Subject: - Hindi

Class: - IV

Teacher: - Ms. Jitender Kaur


Name: _____ Class & Sec: _____ Roll No. _____ Date: __.04.2020

लिंग

परिभाषा - पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं।

लिंग के भेद

हिन्दी भाषा में लिंग को दो भेद होते हैं -



1. **पुल्लिंग** - जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं; जैसे - पुरुष, करुण, पिता, मीर, वीर, पहाड़ आदि।

2. **स्त्रीलिंग** - जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं; जैसे - स्त्री, माता, मैरनी, गाय, पहाड़ी, पुस्तक, नदी आदि।

नीचे लिखे लिंग शब्दों को याद करें और इनका अभ्यास करें

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
नर	नारी	वीर	वीरघाना
द्वार	द्वारा	घोड़ा	घोड़ी
लड़का	लड़की	गायक	गायिका
चाचा	चाची	पुत्र	पुत्री
पिता	माता	आदमी	औरत
राजा	रानी	विद्वान	विदुषी
दादा	दादी	ब्राह्मण	ब्राह्मणी

अभ्यास

Date _____
Page _____

प्रश्न 1 - पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाइए -

वीर, नर, कवि, बूढ़ा, सैहानी, मीर, सेठ, नारी, बुढ़िया,
मीरनी, कवियत्री, वीरांगना

पुल्लिंग

स्त्रीलिंग

पुल्लिंग

स्त्रीलिंग

प्रश्न 2 - रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए -

क. एक लड़का नदी में कूद पड़ा।

ख. घोड़ा बहुत तेज दौड़ा।

ग. मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है।

घ. मेरी दादी अच्छी छुड़सतार थी।

ङ. दात्र विद्यालय जा रहा है।